

(1)

Philosophy, (MJC), CBCS

Session - 23-27

UG SEMESTER - I

MODEL QUESTION

Time -
3 hours

Full marks
- 70

Answer questions directed in each group
प्रत्येक ग्रुप में दिए गए निर्देश के अनुसार प्रश्नों का
उत्तर दें -

Group - A

(Objective questions)

1. Choose the correct answer of the following
निम्न में से सही उत्तर का चयन करें -

10 x 2 = 20

(a) 'Logic is the science of the formal laws
of thought' who told it -

'वर्क शास्त्र विचार के आकार सम्बन्धी नियमों का विज्ञान है -
यह परिभाषा किसने दी है -

(i) A. C. Maitra
ए. सी. मित्रा

(ii) J. S. Mill
जे. एस. मिल

(iii) Tamsan
टैमसन

(iv) Hamilton
हेमिल्टन

(b) Logic is a study of -

वर्क शास्त्र अध्ययन है -

(i) thought
विचार का

(ii) object
वस्तु का

(iii) Language
भाषा का

(iv) All of them
इनमें सभी का

(c) 'Present vice-chancellor of Patna University' is a term - 'पटना विश्व विद्यालय के वर्तमान कुलपति' यह पद है -

(i) Definite
निश्चित

(ii) Indefinite
अनिश्चित

(iii) Both (i) and (ii)

(iv) None of these

(i) और (ii) दोनों

इनमें कोई नहीं

(d) Which part of Proposition is a term -
वाक्य का कौन सा अंग पद होता है -

(i) Subject
उपदेश्य

(ii) Predicate
विषय

(iii) Copula
संयोजक

(iv) Both (i) and (ii)

(i) और (ii) दोनों

(e) 'Logic is the science of Argument' who told this - 'तर्कशास्त्र वाक्य-विचार का विज्ञान है' यह किराते कहा है -

(i) Albert Magnus
अल्बर्ट मैगनस

(ii) J.S. Mill

जे.एस. मिल

(iii) Ben
बैन

(iv) Juverbeg
युवरबेग

(f) According to quality and quantity how many propositions are -

गुण और परिमाण की श्रेणियों से तर्कवाक्य कितने प्रकार के होते हैं -

(i) Two
दो

(ii) Three
तीन

(iii) Four
चार

(iv) Five
पाँच

(g) 'All men are happy' is a proposition -
'सभी मनुष्य खुश हैं' यह एक वाक्य है -

- (i) Universal Affirmative (ii) Universal Negative
पूर्ण सार्वभौमिक वाक्य (ii) पूर्ण सार्वभौमिक निरुक्तिवाक्य
- (iii) Particular Affirmative (iv) Particular Negative
अंश सार्वभौमिक वाक्य (iv) अंश सार्वभौमिक निरुक्तिवाक्य

(h) 'I' Proposition distributes -
I वाक्य व्यापक करता है -

- (i) Subject (ii) Predicate
उपसर्ग (ii) विधीय
- (iii) Both (i) and (ii) (iv) None of them
(i) नौर (ii) दोनों (iv) इनमें कोई नहीं

(i) 'Ram is ill' is a which type of proposition?
'राम बीमार है' किस तरह का वाक्य है?

- (i) Simple Proposition (ii) Compound Proposition
सरल वाक्य (ii) मिश्रित वाक्य
- (iii) Conditional Proposition (iv) Verbal Proposition
सापेक्ष वाक्य (iv) शब्दिक वाक्य

(j) 'Some crows are not black' is a proposition.
'कुछ कौवे काले नहीं हैं' यह वाक्य है -

- (i) 'A' Proposition (ii) 'E' Proposition
A वाक्य (ii) E वाक्य
- (iii) 'I' Proposition (iv) 'O' Proposition
I वाक्य (iv) O वाक्य

Group - B

(Short answer type questions)

Answer any four of the following: —

निम्न में से किसी चार के लघु उत्तर दें —

$$4 \times 5 = 20$$

(1) What is the subject matter of Logic?
तर्कशास्त्र की विषय वस्तु क्या है ?

(2) What do you mean by a term?
पद किसे कहते हैं ?

(3) What is difference between truth and validity?
सत्यता और वैधता में क्या अंतर है ?

(4) Distinguish between universal and Particular Propositions -
पूर्ण व्यापी तथा अंशव्यापी वाक्यों में अंतर बताएं -

(5) Write the rules of conversion.
आवर्तन के नियमों को लिखें

Group - C

(Long answer type questions)

Answer any three of the following: —

किसी तीन प्रश्नों के उत्तर दें —

$$3 \times 10 = 30$$

(1) What are the uses of studying logic?
तर्कशास्त्र के अध्ययन के क्या-क्या फायदे हैं ?

(2) What do you mean by opposition of Propositions?
How many kinds of it ?

वाक्यों के विषय से आप क्या समझते हैं? यह किन्हीं प्रकार का होता है? (3)

(3) what is the process of testing the validity and invalidity of an argument? explain with example.

सत्यता या झूठपन के द्वारा किसी भी युक्ति की वैधता या अवैधता को कैसे जाँचते हैं? उदाहरण से समझाएँ।

(4) what do you mean by distribution of terms? पदों की व्याप्ति से आप क्या समझते हैं? किन्हीं

(5) If 'A' & 'B' are true and 'C' & 'D' are false then determine their validity —

यदि A और B सत्य हैं तथा C और D असत्य हैं तो निम्न युक्तियों के वैधता को जाँच कीजिए।

(a) $\sim A \vee B$ (b) $\sim A \vee \sim B$

